

नकली खाद बनाने का पकड़ा कारखाना, 300 बोरी बरामद

हिन्दुस्तान टीम, चित्रकूट Newswrap
Sat, 27 Nov 2021 03:35 AM



रबी की बुवाई के दौरान खाद की किल्लत को देखते हुए इसका फायदा उठाने में लाइसेंसधारक प्राइवेट दुकानदार नहीं चूक रहे हैं। इफ्को की नकली खाद तैयार कर किसानों को बेची जा रही है। गुरुवार रात पुलिस व कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त तौर पर छापेमारी कर नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़ा है। इसका संचालन करने वाले लाइसेंसधारक दुकानदार समेत तीन लोग पकड़े गए हैं। उपकरणों समेत तीन सौ बोरी नकली खाद बरामद की गई है।

मऊ पुलिस को गुरुवार की शाम सुरौंदा गांव में नकली खाद तैयार करने की सूचना मिली। जिसकी जानकारी थाना पुलिस ने जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ल को दी। पुलिस टीम के साथ कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। संयुक्त छापेमारी के दौरान टीम ने तीन लोगों को दबोच लिया। कृषि अधिकारी ने बताया कि इफ्को की लगभग तीन सौ बोरियों में भरी संदिग्ध खाद पाई गई है। जिसमें डीएपी, एनपीके व एसएसपी खाद शामिल है। मौके पर मऊ के रहने वाले उर्वरक लाइसेंसधारक प्राइवेट दुकानदार श्यामू केशरवानी व दो अन्य लोगों को पाया गया है। यह सभी पुलिस की हिरासत में हैं। तीनों खाद का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। बताया कि इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए डीएम से अनुमति ली जा रही है। बताते हैं कि मौके पर नकली खाद बनाने व पैकिंग आदि के लिए सिलाई मशीन समेत अन्य उपकरण भी टीम को हाथ लगे हैं। इफ्को की खाली बोरियां कहीं से प्रिंट कराने के बाद उसमें नकली खाद भरकर बेचने का काम किया जा रहा था। बरामद खाद को थाने में रखवा दिया गया है।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/chitrakoot/story-fake-fertilizer-factory-caught-300-sacks-recovered-5183263.html>